



केन्द्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ जं
KENDRIYA VIDYALAYA HANUMANGARH JN
Phone: 01552-262020 Website: www.kvhanumangarh.org

विज्ञप्ति (अंशकालीन अनुबंध पर शिक्षकों हेतु साक्षात्कार)

विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु पूर्ण रूप से अंशकालीन अनुबंध (के०वि०सं० नियमानुसार) के आधार पर विभिन्न शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों का पैनल तैयार किया जाना है। इसके लिए साक्षात्कार निम्नानुसार आयोजित किये जायेंगे:-

क्र .	पद	साक्षात्कार दिनांक / समय
1	TGT (English/Hindi/Maths/Science/Social Science/Sanskrit) & Primary Teacher.	26.02.19 (प्रातः 9बजे से)
2	Yoga Instructor, Sports Coach, Computer Instructor, Nurse	27.02.19 (प्रातः 9बजे से)

योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर इसे पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियों सहित मय फोटो के दिनांक 25.02.2019 (सोमवार) सायं 05:00 बजे तक विद्यालय में व्यक्तिशः, डाक एवं ईमेल द्वारा जमा करवा दें। ईमेल माध्यम से भेजे जाने वाले आवेदन kvhmgcti@gmail.com पते पर ही भेजे। (रविवार दिनांक 24.02.2019 को भी विद्यालय में आवेदन जमा होंगे) **अंतिम तिथि 25.02.2019 सायं 05:00 बजे के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।** अभ्यर्थी सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अपने मूल दस्तावेज साथ लेकर आयें। योग्यता, नियम व शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाइट www.kvhanumangarh.org का अवलोकन करें। प्रत्येक पद हेतु शैक्षिक अर्हता के.वि.सं. के मानकों के आधार पर होगी।

---प्राचार्य / Principal



केन्द्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ (जं)

संकेतस्थल (Website) : www.kvhanumangarh.org

फोन (Ph) : 01552-262020

अंशकालीन अनुबंध के साक्षात्कार हेतु महत्वपूर्ण नियम एवं निर्देश

केन्द्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु पूर्णतया अंशकालीन अनुबंध आधार पर शिक्षकों / प्रशिक्षकों का पैन्ल तैयार करने के लिए साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। साक्षात्कार हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार है –

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार केन्द्रीय विद्यालय में लागू विषयों हेतु सत्र के आरम्भ से पूर्व पैन्ल बनाने का प्रावधान है, भले ही किसी विषय में पद रिक्त न हों, क्योंकि सत्र के मध्य शिक्षक के स्थानान्तरण अथवा अवकाश पर जाने की स्थिति में कुछ समय के लिए भी संविदा शिक्षक की आवश्यकता हो सकती है।
2. आवेदन विद्यालय में व्यक्तिशः, डाक एवं ईमेल द्वारा जमा करवाये जा सकते हैं। व्यक्तिशः रूप से विद्यालय में आवेदन कार्यालय समय प्रातः 09:00 बजे से 04:00 बजे के बीच ही जमा करवाए जा सकेंगे।
3. **आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि दिनांक 25.02.2019 (सोमवार) सायं 05:00 बजे तक होगी।**
4. आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 25.02.2019 (सोमवार) सायं 05:00 बजे के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
5. अभ्यर्थी दिनांक 24.02.2019 (रविवार) को भी विद्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं।
6. ईमेल माध्यम से आवेदन भेजे जाने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले की उक्त आवेदन पूर्ण रूप से भरा जा चूका है एवं उस पर अपना फोटो चस्पा करते हुए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर उसे स्कैन करके केवल kvhmgcti@gmail.com पते पर ही भेजे। साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी इस आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियों संलग्न करते हुए ही अपना आवेदन प्रस्तुत करें।
7. आवेदन करते समय समस्त जानकारी सही भरें, यदि जाँच में कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किया जायेगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी नियुक्ति से पूर्व पुलिस सत्यपान करवाया जायेगा। अतः स्थायी पता सही भरें एवं इसका प्रमाणिक पहचान पत्र की एक प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करें।
9. साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. वेतन / परिश्रमिक, एवं शर्तों के ० वि० संगठन के नियमानुसार लागू होंगी।
11. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो।
12. सभी पदों के लिए हिन्दी व अंग्रेजी में पढ़ाने की दक्षता आवश्यक है।
13. कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान सभी पदों के लिए वांछनीय है।
14. किसी भी रिक्त पद पर अस्थायी नियुक्ति का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।
15. विद्यालय हित में, नियुक्त किये गये किसी भी संविदा कर्मचारी को बिना कारण बताये हटाये जाने का अधिकार प्राचार्य को है।
16. पैन्ल की वरीयता से शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा तथा वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा कक्षा-शिक्षण का निरीक्षण कर यदि कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो ही सेवाएँ ली जावेंगी।

--प्राचार्य / PRINCIPAL